

कैसे पाएं मस्सों से छुटकारा



रोज दो-तीन बार प्याज का लेप मस्सों पर करें। इससे मस्से झड़ जाते हैं।

शरीर की त्वचा पर यदि छोटे-छोटे काले मस्से हो गए हों, तो उन पर काजू के छिलकों का तेल लगाने से मस्से साफ हो जाते हैं।

चूना और घी समभाग लेकर दोनों को खूब फेंटकर सुरक्षित रखें। उसे दिन में 3-4 बार मस्सों पर लगाएँ। उससे मस्से नष्ट हो जाते हैं, दुबारा नहीं होते।

सोडा कास्टिक 6 ग्राम को 250 ग्राम की शीशी में घोलकर सुरक्षित रखें। फुरेरी से सावधानी के साथ मस्सों पर लगाएँ। मस्सों को दूर करने के लिए यह रामबाण दवा है।

खट्टी सेब का रस मस्सों पर लगाने से मस्सों के छोटे-छोटे टुकड़े होकर गिर जाते हैं।

मुँहासे या मस्से हों तो फिटकरी और काली मिर्च आधा-आधा ग्राम पानी में पीसकर मुँह पर मलें। इससे बहुत लाभ मिलता है।